



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 अगस्त, 2023

श्रावण 19, 1945 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

10th August, 2023

No. 100/UP-LA/3/2023

Dated : _____.
19 Sravana, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

WHEREAS, the seat of Shri Dara Singh Chauhan, in the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, elected from **354-Ghosi** Assembly Constituency, has become vacant on 17th July, 2023 by reason of his resignation ; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-

(A) **calls upon** the said **354-Ghosi** Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh, to elect, before the **10th September, 2023 (Sunday)**, and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State.

(B) **appoints**, with respect to the said election:-

- (a) the 17th August, 2023 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th August, 2023 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 21st August, 2023 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 5th September, 2023 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 10th September, 2023 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 07:00 am to 06:00 pm as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/3/2023

दिनांक : 10 अगस्त, 2023
19 श्रावण, 1945 (शक)

अधिसूचना

यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा में 354-घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री दारा सिंह चौहान का स्थान उनके त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 17 जुलाई, 2023 को रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1), तथा धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा -

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त 354-घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि **10 सितम्बर, 2023 (रविवार)** से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्विनिर्देश बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए।

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 17 अगस्त, 2023 (गुरुवार);

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 18 अगस्त, 2023 (शुक्रवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 21 अगस्त, 2023 (सोमवार);

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, : 5 सितम्बर, 2023
(मंगलवार); और

मतदान होगा

(ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न : 10 सितम्बर, 2023 (रविवार)
करा लिया जाएगा

(इ) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,
पवन दीवान,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 470 राजपत्र-2023-(1582)-588+50 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।